



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941

No. 334]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/JYAISTHA 10, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

**सा.का.नि. 398(अ).**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (समूह “क”) मुख्य बीज विश्लेषक, बीज तकनीशियन और बीज प्रसंस्करण अभियांत्रिकी भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जहां तक बीज तकनीशियन से संबंधित है, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में बीज तकनीशियन पर भर्ती के पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, बीज तकनीशियन (समूह ‘क’ पद) भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर होंगे.—उक्त पद की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षणिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद के भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. – जहां केंद्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इस नियमों कि किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीज तकनीशियन	03* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रुपये)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति:; भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 33.33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), (ii) 66.67% प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ वेतन मैट्रिक्स में लेवल द्वारा भर्ती के दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ वेतन मैट्रिक्स में स्तर किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900 - 1,42,400 रु.) में ऐसा ज्येष्ठ बीज विश्लेषक जिसने सात वर्ष नियमित सेवा की हो और बीज परीक्षण, बीज उत्पादन, बीज गुणवत्ता विनियम और विधि प्रवर्तन में दो से चार सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा कि गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त संस्थानों या अर्द्ध सरकारी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के अधीन</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</li> <li>2. संयुक्त सचिव (बीज), कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> <li>3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टीकरण (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव (बीज), कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष;</li> <li>2. निदेशक (बीज), कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य;</li> <li>3. निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी - सदस्य;</li> <li>4. निदेशक या उप-सचिव</li> </ol>	<p>पद भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

<p>अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग समूह 'क' वेतन मैट्रिक्स में स्तर (56,100 - 1,77,500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ;</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर 7 (44900-142400 रुपये) वेतन मैट्रिक्स में नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में सात वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी (कृषि) या समतुल्य;</p> <p>(ii) बीज उत्पादन या बीज विपणन या बीज सत्यापन या बीज परीक्षण या बीज गुणवत्ता नियंत्रण या बीज विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया</p>	<p>(प्रशासन), कृषि सहायिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य ।</p>	
--	--	--

चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
---	--	--

[मिसिल सं. 20011/03/2016-SD.II]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2019

**G.S.R. 398(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Seed Research and Training Centre (Group 'A') Chief Seed Analyst, Seed Technologist and Seed Processing Engineer Recruitment Rules, 2017 in so far as they relate to the post of Seed Technologist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Seed Technologist in the National Seed Research and Training Centre under the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, National Seed Research and Training Centre, Seed Technologist (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. Disqualification. – No person,-  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Savings. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Seed Technologist.	03* (2019) (* Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial).	Level - 11 (Rs. 67700-208700/-).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period Probation. if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	(i) 33.33% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 66.67% by deputation (including short-term contract).	<b>Promotion:</b> Senior Seed Analyst in the level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix having seven years regular service and having successfully completed two to four weeks training in seed testing, seed production, seed quality regulation and law enforcement.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman;  (2) Joint Secretary (Seeds) Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare – Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of the post.

		<p>more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous Organisations or Semi-government Organisations or Public Sector Undertakings:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) having five year's service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) having seven year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) M. Sc. (Agriculture)</p>	<p>(3) Joint Secretary (Admn.), Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare – Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <p>(1) Joint Secretary (Seeds), Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare – Chairman;</p> <p>(2) Director (Seeds), Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare – Member;</p> <p>(3) Director, National Seed Research &amp; Training Centre, Varanasi – Member;</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary (Admin.), Department of Agriculture Cooperation and Farmers</p>	
--	--	--	---	--

			<p>from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) five years experience in the field of Seed Production or Seed Marketing or Seed Certification or Seed Testing or Seed Quality Control or Seed Development programmes.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible or consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately, preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of application.</p>	Welfare Member. —	
--	--	--	---	-------------------	--

[F. No. 20011/03/2016-SD.II]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.